



# उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र

(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार)  
**Centre for High Technology**  
(Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India)

स.उ.प्रौ.के./प्रशा./3.17/1504

दिनांक: 8.2.2019

अनुभाग अधिकारी (ओआर-II)  
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,  
भारत सरकार, शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली - 110001

विषय: दिनांक 13.2.2019 का राज्यसभा प्रोविज़नली ऐडमिटेड

प्रश्न डायरी सं. S1380

(संदर्भ: डिपेंडेंसी ऑफ केरोसीन एण्ड कुकिंग गैस सब्सिडी ऑन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस)

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 8.2.2019 का अवलोकन करें जो कि राज्यसभा के पटल पर 13.2.2019 को रखा जाना तय हुआ है।

राज्यसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न डायरी संख्या S1380 के प्रश्न का उत्तर देने हेतु अनुपूरक सामग्री उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा प्रेषित की जा रही है।

धन्यवाद,

भवदीय

21/2/2019

(सत्यवीर सिंह)

संयुक्त निदेशक (एच आर)

संलग्नक: यथा उपर्युक्त

का. प्रति:

- कार्यकारी निदेशक
- निदेशक

ओ.आई.डी.बी. भवन, 9वाँ तल, प्लॉट नंबर 2, सैक्टर 73, नोएडा 201307 (उ. प्र.)

OIDB Bhawan, Tower "A", 9th Floor, Plot No. 2, Sector-73, Noida - 201307 (U. P.)

Tel. : ..... Fax: 91-120-2593780/2593782, Email: .....@cht.gov.in Website: www.cht.gov.in

Liaison Office: C/o. OIDB, 301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi-110 001

**Centre for High Technology**

(Ministry of Petroleum & Natural Gas)

NOIDA


8 February 2019

**Ref: MoP&NG e-mail dated 08.02.2019 – Rajya Sabha Question Dy.No. S1380 on Dependency of Kerosene and Cooking Gas subsidy on global crude oil prices to be answered on 13.02.2019**

**Q (d) The impact of Kerosene on indoor pollution and health;**

Ans.(d) The major contaminant of Kerosene is Sulphur. The Sulphur Specification of Kerosene has been reduced from 0.25% to 0.2% in May,2016. Further, MoP&NG has directed OMCs to supply Kerosene with 0.1% Sulphur (max.) from 1.4.2020.

As regards impact on indoor air pollution and health, CPCB/MoEF&CC may reply.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Kumar', is written over a horizontal line.

Subject: Dependency of Kerosene and cooking gas subsidy on global crude oil prices  
To: pqpng@nic.in

Date: 01/31/19 04:28 PM  
From: rsqns@sansad.nic.in

304

PROVISIONALLY ADMITTED QUESTION FOR THE RAJYA SABHA

Starred /Unstarred Diary No.-- S1380

The Question Will be put down for -- 13/02/2019

Answer on the Ministry Department -- PETROLEUM AND NATURAL GAS( PET)

Dependency of Kerosene and cooking gas subsidy on global crude oil prices

Smt. Vandana Chavan; Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state

(a) whether it is a fact that the total amount of kerosene and cooking gas subsidy given each year is dependent upon global crude oil price, and is therefore difficult to estimate;

(b) the total amount spent on subsidies for kerosene and cooking gas for the last three financial years, as compared to budget estimates;

(c) the number of States where there is Direct Benefit Transfer in Kerosene (DBTK) or cooking gas subsidy; and

(d) the impact of kerosene on indoor air pollution and health?

aa

SO(PP)

It is kindly provide inputs in respect of part (c) of the above question urgently.

US (Refinery)

ASO(PP)

S. Anush